

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 14.10.2020

दिनांक 13.10.2020 को थाना कटरा पुलिस को कार्यवाही के दौरान मिली बड़ी कामयाबी मादक पदार्थ को लगभग 18 लाख रुपये कीमत की स्मैक पाउडर के साथ किया गिरफ्तार ।

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमती अपर्णा गौतम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन में थाना कटरा पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

दिनांक 13.10.20 प्रभारी निरीक्षक कटरा के नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय करीब 17.30 बजे कटरा तिलहर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नहर पुलिया से 10 कदम C.H.C कटरा लिंक मार्ग अभियुक्त आबिद पुत्र कल्लू मंसूरी नि0मो0 इस्लामनगर कस्बा व थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर को 90.20 ग्राम स्मैक (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना कटरा पर मु0अ0सं0 486/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा । अभियुक्त से की गयी पूछताछ करने पर प्रकाश मे आये तथ्यो के आधार पर विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तारी अभियुक्त का विवरण:-

आबिद पुत्र कल्लू नि0मो0 इस्लामनगर कस्बा व थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

स्मैक (हेरोइन) 90.20 ग्राम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत लगभग 18 लाख रुपये ।

आपराधिक इतिहास:-

आबिद पुत्र कल्लू मंसूरी नि0मो0 इस्लामनगर कस्बा व थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर ।

1. मु0अ0सं0 486/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कटरा जनपद शाह0

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. SHO हरपाल सिंह बालियान थाना कटरा जनपद शाह0
2. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कटरा जनपद शाह0
3. का0 49 निर्मल सिंह थाना कटरा जनपद शाह0
4. का0 1805 प्रभात कुमार थाना कटरा जनपद शाह0
5. म0का0 1675 प्रीति यादव थाना कटरा जनपद शाह0
6. म0का0 1639 सोनिया थाना कटरा जनपद शाह0

